

21Pa 3

११ जुलाई २०२१

परिचय परीक्षा

सूरीनाम हिन्दी परिषद्

“जय प्रकाश हिन्दी संस्थान”

प्रश्न पत्र 3



सूचना: सभी प्रश्नों के उत्तर पाठ्यपुस्तक के आधार पर लिखे।

समय: 3 घंटे

Cijfer: $\frac{Score+10}{10}$

परीक्षा क्रमांक: _____

क. किसी 1 विषय पर लगभग २०० (200) शब्दों का निबंध लिखिए - [15]

1. ऑनलाइन शिक्षण के लाभ और हानी
2. हिन्दी शिक्षण का आधुनिकीकरण
3. सोशल मीडिया और व्यापार

ख. पत्र-लेखन : [15]

अन्तोन द कॉम विश्वविद्यालय के बोर्ड के अध्यक्ष को पत्र द्वारा हिन्दी का महत्त्व बताते हुए उनसे आग्रह करें कि विश्वविद्यालय में हिन्दी ही पढ़ाई भी स्नातक (bachelor) स्तर पर शुरू करवाएँ। [विश्वविद्यालय का पता: लेयसवेग # ८६, तममेंगा]

ग. इन मुहावरों और कहावतों का अर्थ लिखिए। [16]

1. नौ दिम चले अढ़ाई कोस
2. उधेड़-बुन में लगना
3. चिकने घड़े पर पानी नहीं ठहरता
4. अपना उल्लू सीधा करना
5. गधा धोने से बछड़ा नहीं बनता
6. आँधी के आम
7. खयाली पुलाव पकाना
8. अपनी गली में कुत्ता भी शेर

घ. 1. अव्यय क्या है? कितने प्रकार के हैं? इन प्रकारों का उल्लेख कीजिए। [6]

2. हिन्दी में कितने कारक हैं? निम्न कारक चिह्नों के नाम लिखिए- [4]

a. से ब. को c. का

ङ. समानार्थी शब्द लिखिए। [8]

- | | | | |
|----------|--------|------------|---------|
| 1. शासन | 3. खबर | 5. परीक्षा | 7. भौरा |
| 2. सरसिज | 4. खग | 6. असुर | 8. कंचन |

च. विलोम शब्द लिखिए। [7]

- | | | | |
|------------|-----------|-----------|------------|
| 1. निकृष्ट | 3. स्थूल | 5. अनुराग | 7. सूक्ष्म |
| 2. दुरूह | 4. सृष्टि | 6. स्मरण | |

छ. निम्नलिखित अशुद्धियों को शुद्ध कीजिए। [5]

1. प्रदर्शिनी 2. व्यवहारिक 3. रितु 4. सन्मुख 5. तंदुरस्ती

ज. वर्ण विच्छेद कीजिए। [5]

1. श्लाघ्य 2. असहिष्णु 3. क्लिष्ट 4. अनायास 5. कर्तव्यविमूढ़

झ. निम्न वाक्यों को निर्देशानुसार बदलिए। [9]

1. संदिग्ध वर्तमान काल [वाक्य उदहारण दीजिए]
2. हेतु-हेतुमद् भूतकाल [वाक्य उदहारण दीजिए]
3. संभाव्य भविष्यत् काल [वाक्य उदहारण दीजिए]
4. मेरा भाई तरुण धार्मिक पुस्तकें बहुत पढ़ता है। [वाक्य विश्लेषण कीजिए]

~ समाप्त ~